



ताज़ा

राष्ट्रीय

दुनिया

क्रिकेट

ऑटो

विश्वास • News

मनोरंजन

पॉलिटिक्स

बिजनेस

टेक ज्ञान

लाइफस्टाइल

स्पेशल

आम मुद्दे

शिक्षा



अपने पसंदीदा टॉपिक्स चुनें

DigitalOcean The developer cloud for modern apps Try Free

हिंदी न्यूज़ / सखी / सौंदर्य

# कॉस्मेटिक सर्जरी



Publish Date: Sat, 02 Aug 2014 11:35 AM (IST)



मैं बेजान-ढीली त्वचा, अत्यधिक फूले हुए गाल, आंखों के नीचे गड्ढे और अनइवेन स्किन टोन से परेशान हूं। मुझे किन-किन ट्रीटमेंट की जरूरत है?

मैं बेजान-ढीली त्वचा, अत्यधिक फूले हुए गाल, आंखों के नीचे गड्ढे और अनइवेन स्किन टोन से परेशान हूं। मुझे किन-किन ट्रीटमेंट की जरूरत है?

एम. कपूर, हैदराबाद

## NEXT STORIES

समस्या से निपटने के लिए पीआरपी बेस्ट है। यह त्वचा के कोलेजन को सक्रिय करता है।

गालों को सामान्य करता है। साथ ही आंखों के नीचे बने गड्ढों को कम करता है। स्किन टोन को इंप्रूव करता है। त्वचा में कसाव लाता है और उन हिस्सों को भी भरता है जहां हालॉरोनिक एसिड फिलर्स पहुंच नहीं सकते। इन फिलर्स को इस्तेमाल करना सुरक्षित भी नहीं होता।

मेरी उम्र 25 वर्ष है। मेरी बांहें काफी भारी हैं। इस कारण मैं अपने पसंदीदा कपडे नहीं पहन पाती। ऐसा लगता है कि शरीर का सारा फैट और वजन वहीं जमा हो गया है। मैंने कुछ दिन एक्सरसाइज की, लेकिन खास सुधार नहीं दिखा। मुझे क्या करना चाहिए?

**उज्जवला सिंह, कानपुर**

बांहों को लिपोसेक्शन के जरिये सही आकार दिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म छिद्रों द्वारा आर्म्स से अतिरिक्त वसा को निकाल दिया जाता है और आप मनचाहा आकार पा सकती हैं।

मेरी उम्र 21 वर्ष है। बचपन में जल जाने के कारण मेरे चेहरे और गर्दन की त्वचा बेहद खराब हो गई है। अब मैं बड़ा हो गया हूं और मेरे साथी जब चेहरा देखकर दूर-दूर रहते हैं तो मुझे बहुत खराब लगता है। क्या कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिये जलने के निशान दूर किए जा सकते हैं? उचित समाधान बताएं?

**एस.शाह, सूरत**

कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा जले के निशानों को हटाया जा सकता है। एक प्लास्टिक सर्जन ही आपको देखकर बता सकता है कि आपके चेहरे के कौन-कौन से निशान हटाए जा सकते हैं। इन निशानों को हटाने की प्रक्रिया या ऑपरेशन का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी की किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक कॉस्मेटिक सर्जन आपका परीक्षण करने के बाद ही बता सकता है।

मेरी उम्र 34 साल है। मुझे डबल चिन भी समस्या है। जिसके चलते बाकी शरीर की तुलना में मेरे

**NEXT STORIES**

**आकार असंतुलित दिखता है। मेरे लिए क्या प्लास्टिक सर्जरी उपयुक्त होगी? साथ ही**

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations.

our [Privacy Policy](#) and [Cookie Policy](#). **OK**

डबल चिन को लिपोसक्शन करके ठीक किया जा सकता है। इसमें आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। आप सुबह आकर शाम को वापस घर जा सकती हैं। इस प्रक्रिया में करीब 30-35 हजार का खर्च आता है।

कई सालों से मेरी आंखों के नीचे सूजन आ गई है। धीरे-धीरे यह सूजन बढ़ती ही जा रही है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन दवाइयों से कोई लाभ नहीं हुआ। क्या कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा इसका इलाज संभव है? इससे मुझे छुटकारा कैसे मिल सकता है?

श्वेता झा, पटना

उम्र के साथ-साथ आंखों के नीचे धीरे-धीरे झुर्रियां आने लगती हैं। नतीजतन चर्बी बाहर आने लगती है। जिसके कारण आंखों के आसपास सूजन दिखाई देती है। इस समस्या को ब्लेफैरो प्लास्टी के जरिये ठीक किया जा सकता है। इसके द्वारा ऊपरी और निचली पलकों (अपर व लोअर आइलिड) को नया आकार दिया जाता है। इसे कराने के लिए सुबह से शाम तक का समय लगता है।

मेरी उम्र 24 वर्ष है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सर्जरी के जरिये ब्रेस्ट का साइज बढ़वाने के बाद सर्जरी के निशान बने रहते हैं? मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अविवाहित हूँ इसलिए चाहती हूँ कि निशान न रहें? क्या ऐसा संभव है?

आर. एस., इटावा

फैट ग्राफ्टिंग (फैट इंजेक्शन) ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने की एक नई प्रक्रिया है जिसमें आपकी शरीर के अन्य हिस्सों से फैट लेकर आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोई चीरा नहीं लगता है। सिर्फ इंजेक्शन के द्वारा आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है।

#### NEXT STORIES

-आर्म्स के लिपोसक्शन से उन्हें मनचाहा आकार दिया जा सकता है और अतिरिक्त चर्बी को निकाला जा सकता है। आर्म्स के लिपोसक्शन के कुछ ही घंटों बाद आप घर जा सकती हैं।

- ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ब्रेस्ट को बढ़ाने की एक कारगर प्रक्रिया है। स्तनों को स्थायी रूप से बढ़ाना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास कितनी ढीली त्वचा है।

## कॉस्मेटिक सर्जन

डॉ. विवेक कुमार

आज़ादी की 72वीं वर्षगाँठ पर भेजें देश भक्ति से जुड़ी कविता, शायरी, कहानी और जीतें फोन, डाउनलोड करें जागरण एप

# Cosmetic surgery

# plastic surgery

# fat injection

### NEXT STORIES

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. For more information, please see our [Privacy Policy](#) and [Cookie Policy](#). **OK**